



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 02.10.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

पुलिस लाईन्स खीरी में हर्षोल्लास से मनायी गयी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री जी की जयंती; राष्ट्र की एकता व अखण्डता की दिलाई गई शपथ



आज दिनांक "02 अक्टूबर 2021" को "गांधी जयंती" के अवसर पर पुलिस लाईन्स खीरी में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय दुल द्वारा "राष्ट्रपिता महात्मा गांधी" व "पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री" के चित्रों का लोकार्पण एवं माल्यार्पण कर नमन किया गया। इस अवसर पर महोदय द्वारा अपने उद्बोधन में इन महापुरुषों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके अतुल्य योगदान को याद करते हुए समस्त पुलिसकर्मियों को उनके सम्पूर्ण जीवन से प्रेरणा लेकर उनके द्वारा दिखाए गए सत्य, अहिंसा, सद्भाव, भाईचारा, परिश्रम व सदमार्ग के रास्ते पर चलने की अपील करते हुए सभी पुलिसकर्मियों को सत्य, अहिंसा व सदमार्ग पर चलते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता व सुरक्षा हेतु अपना योगदान करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही चतुर्थ श्रेणी के 104 कर्मचारियों को कम्बल वितरण कर सम्मानित किया गया एवं हे0का0 भद्रसेन को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सदर, प्रतिसार निरीक्षक खीरी आदि अधिकारीगण के साथ-साथ रिक्कूट आरक्षीगण तथा पुलिस लाईन्स व विभिन्न कार्यालयों से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।

थाना पलिया पुलिस द्वारा हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण, मृतक की पत्नी सहित 03 हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, आलाकल्ल कुल्हाड़ी बरामद



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय दुल के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 02.10.2021 को थाना पलिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 380/21 धारा 302/201/120बी/34 भादवि का सफल अनावरण करते हुए मृतक की पत्नी सहित 03 अभियुक्तों सफीक अहमद, पवन कुमार व मृतक की पत्नी रूकसार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से आलाकल्ल कुल्हाड़ी व मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

मृतक जमील अहमद की पत्नी रूकसार का अवैध संबंध अभियुक्त सफीक अहमद के साथ था। जिस कारण रूकसार ने योजना बनाकर सफीक अहमद व उसके साथी पवन कुमार के साथ मिलकर दिनांक 25.09.2021 को जमील अहमद की हत्या करके शव को जंगल में छिपा दिया था। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर दिनांक 01.10.2021 को ही मृतक का शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम परीक्षण कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1-सफीक अहमद पुत्र हरचंदी निवासी गुलराटांडा थाना पलिया जनपद खीरी
- 2-पवन कुमार पुत्र बच्चू लाल निवासी हरबख्शपुर थाना तिकुनिया जनपद खीरी
- 3-रूकसार पुत्री शब्बीर निवासी गरदहा थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

बरामदगी:-

मृतक जमील का मोबाइल फोन
आलाकल्ल कुल्हाड़ी
घटनास्थल से बरामद अभियुक्त सफीक का आधार कार्ड

पुलिस टीम:-

प्र०नि० हरिकेश राय, थाना पलिया
उ०नि० शिवाजी दुबे
का० अंकित
का० पवन
म०आ० सविता मिश्रा

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करके चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 02.10.2021 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करके चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों दिनेश कुमार व साजिद को गिरफ्तार किया गया है। बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में थाना मैलानी पर पूर्व से चोरी का अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. दिनेश कुमार पुत्र लालबिहारी निवासी बहादुरनगर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी
2. साजिद उर्फ लुकइया पुत्र रियासत निवासी मो0 गौतमनगर कस्बा व थाना मैलानी जनपद खीरी

बरामदगी:-

चोरी की 02 अदद मोटरसाइकिल स्पलेन्डर प्रो व सी0डी0 डिलक्स

पुलिस टीम:-

उ0नि0 अनुज कुमार शर्मा
उ0नि0 रामबक्श
का0 रोबिन सिंह
का0 मोहित कुमार
का0 चाहत कुमार

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, लूट की घटना का सफल अनावरण करके 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, लूटा गया ई-रिक्शा व मोबाइल फोन तथा अवैध शस्त्र-कारतूस बरामद



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 02.10.2021 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा ई-रिक्शा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों महमूब पुत्र अजीमुल्ला व राजू सिंह पुत्र रामकुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर लूटा गया ई-रिक्शा व मोबाइल फोन बरामद किया गया है। साथ ही अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 03 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है जिसके संबंध में आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. महमूब पुत्र अजीमुल्ला निवासी कचूरी थाना महोली जनपद सीतापुर
2. राजू सिंह पुत्र रामकुमार सिंह निवासी ग्राम वद्दापुर थाना महोली जनपद सीतापुर

बरामदगी:-

लूट का 01 अदद ई-रिक्शा व 01 अदद मोबाइल फोन
01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 03 अदद जिंदा कारतूस

पुलिस टीम:-

प्र0नि0 राकेश कुमार गुप्ता, थाना मोहम्मदी
उ0नि0 विजय प्रताप सिंह
हे0का0 मनोज कुमार
का0 मनीष वर्मा
का0 ओमप्रकाश गौतम
का0 रवि रावत
का0 प्रमोद कुमार

कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, 10 लाख रूपये की रंगदारी मांगने वाले शातिर अपराधी व उसके साथियों को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद



प्रेस नोट

जनपद खीरी (दिनांक 02.10.2021)

कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 10 लाख रूपये की रंगदारी मांगने वाले शातिर अपराधी व उसके साथियों को किया गिरफ्तार एवं घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में दिनांक 02.10.2021 को कोतवाली सदर जनपद खीरी व क्राइम ब्रांच टीम जनपद खीरी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेलवे फाटक महाराजनगर से अभियुक्त 1. रंजीत जायसवाल पुत्र राजकुमार जायसवाल निवासी ईदगाह थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी, 02. पंकज शुक्ला पुत्र स्वामीदयाल शुक्ला निवासी मोतीनगर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी, 03. सुधीर पाण्डेय पुत्र रामकुमार पाण्डेय निवासी राजगढ़ थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 978/2021 धारा 384,507,419,420,386 व 120(बी) भादवि में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त वैधानिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्तों को मा0 न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण:-

1. रंजीत जायसवाल पुत्र राजकुमार जायसवाल निवासी ईदगाह थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।
2. पंकज शुक्ला पुत्र स्वामीदयाल शुक्ला निवासी मोतीनगर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।
3. सुधीर पाण्डेय पुत्र रामकुमार पाण्डेय निवासी राजगढ़ थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।

बरामदगी का विवरण:-

- (1) अभियुक्तगणों के कब्जे से तीन मोबाइल स्वयं के,
- (2) घटना में प्रयुक्त मोबाइल नम्बर 8114189856 बरामद,
- (3) अभियुक्तगणों के कब्जे से दो अदद सिम कार्ड बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली सदर खीरी।
2. उ0नि0 शिव कुमार यादव क्राइम ब्रांच जनपद खीरी।
3. हे0का0 विजय शर्मा थाना कोतवाली सदर खीरी।
4. हे0का0 हेमन्त सिंह थाना कोतवाली सदर खीरी।
5. का0 मनीष यादव थाना कोतवाली सदर खीरी।
6. का0 देवेन्द्र सिंह यादव क्राइम ब्रांच जनपद खीरी।
7. का0 श्री ओम मिश्रा क्राइम ब्रांच जनपद खीरी।
8. कां0 योगेश तोमर क्राइम ब्रांच जनपद खीरी।
9. कां0 अजीत यादव क्राइम ब्रांच जनपद खीरी।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 110 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ अल्प्राजोलम बरामद करके अभियुक्त उपेन्द्र शुक्ला को गिरफ्तार किया



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 02.10.21 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त उपेन्द्र शुक्ला प्रमोद शुक्ला निवासी खमरिया पंडित थाना ईसानगर जनपद खीरी को 110 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ अल्प्राजोलम सहित गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना ईसानगर पर एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

उपेन्द्र शुक्ला प्रमोद शुक्ला निवासी खमरिया पंडित थाना ईसानगर जनपद खीरी

बरामदगी

110 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ अल्प्राजोलम

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त करतार पुत्र रामाधार को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त करतार पुत्र रामाधार नि० नौहर पुरवा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को ०१ अदद अवैध तमंचा १२ बोर व ०१ अदद जिन्दा कारतूस १२ बोर सहित गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना फूलबेहड़ पर मु०अ०सं० ४०६/२१ धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

करतार पुत्र रामाधार नि० नौहर पुरवा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी।

बरामदगी:-

०१ अदद अवैध तमंचा १२ बोर
०१ अदद जिन्दा कारतूस १२ बोर

थाना निघासन पुलिस द्वारा ११०० लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना निघासन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नौगवां घाट सूतिया नाला के पास से १,१०० लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण को बरामद किया गया एवं मौके से सभी अभियुक्त भाग गए। जिसके संबंध में थाना निघासन पर मु०अ०सं० ५५०/२१ धारा २७२ भादवि व ६०(२) आबकारी अधि० बनाम कैलाल कुमार पुत्र शत्रुधन व ०६ अन्य नफर अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अ0सं0 176/20 धारा 138बी भादवि में वारंटी अभियुक्त रामबिला पुत्र रामलाल नि0 भूपतिपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 1310 लीटर अवैध शराब सहित 11 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **1310 लीटर अवैध कच्ची शराब, 07 अवैध शराब भट्टी सहित बरामद कर 11 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **12 अभियोग** पंजीकृत किए गए।

क्र0सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना निघासन	1100 लीटर	
2.	थाना धौरहरा	60 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना सिंगाही	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना मितौली	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना हैदराबाद	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना गोला	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	कोतवाली सदर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना नीमगांव	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
9.	थाना फूलबेहड़	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
10.	थाना फरधान	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	1310 लीटर	11 अभियुक्त गिरफ्तार